



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{2} - \frac{3}{9} =$$

$$\frac{7}{3} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{4}{7} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{5} =$$

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{9} =$$

$$\frac{6}{4} - \frac{3}{4} =$$

$$\frac{6}{8} - \frac{1}{5} =$$

$$\frac{3}{7} - \frac{1}{8} =$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{9} =$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{7} =$$



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{2} - \frac{3}{9} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{3} - \frac{1}{4} = \frac{25}{12} = 2\frac{1}{12}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{4}{7} = \frac{5}{28}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \frac{11}{20}$$

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{6}{8} - \frac{1}{5} = \frac{11}{20}$$

$$\frac{3}{7} - \frac{1}{8} = \frac{17}{56}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{7} = \frac{29}{42}$$